



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 1978/फाल्गुन 19, 1899

No. 79]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 1978/PHALGUNA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1978

सां० का० वि० 170(अ) — केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 1 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के प्रत्येक एक हजार रुपये के अंकित मूल्य के पांच लाख शेयरों में विभक्त पचास करोड़ रुपये की कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी में से 11.25 करोड़ रुपये के प्रत्येक एक हजार रुपये अंकित मूल्य के एक लाख बारह हजार पांच सौ शेयरों को, उनके आठवें निर्गम के रूप में जारी किए जाने की मंजूरी देती है।

[सां० का० 6-8/78-एस० जी०]

amounting to 11.25 crores of rupees, as its eighth issue, out of the total authorised share capital of fifty crores of rupees divided into five hundred thousand shares of the face value of one thousand rupees each.

[F. 6-8/78-SG]

सां० का० वि० 171(अ) — केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 1 की उपधारा (2) के अनुसरण में 30 सितम्बर 1978 तक की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस अवधि तक छह करोड़ पचाहत्तर लाख रुपये के प्रत्येक एक हजार अंकित मूल्य के केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के एक लाख बारह हजार पांच सौ शेयरों के आठवें निर्गम की शेयर पूंजी के साठ प्रतिशत का अभिदाय नीचे की मारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित संस्थाओं द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित अनुपात में किया जा सकेगा —

सारणी

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th March, 1978

G.S.R. 170(F).—In pursuance of sub-section (1) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby sanctions the issue of one lakh twelve thousand five hundred shares of the Central Warehousing Corporation of the face value of one thousand rupees each,

428 GI77-1

संस्था का नाम

शेयर पूंजी का वह अनुपात जिसका अभिदाय किया जा सकेगा

(1)

(2)

(क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, दो करोड़ पचास लाख रुपये तक 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक

(229)

(1)	(2)	(1)	(2)
(ख) अन्य अनुसूचित बैंक	वा करोड़ पचहत्तर लाख रुपये तक	(b) Other scheduled banks	Upto rupees two hundred seventy five lakhs.
(ग) बीमा कम्पनियां विनिधान न्यास और अन्य वित्तीय संस्थाएँ	एक करोड़ पचास लाख रुपये तक	(c) Insurance companies, investment trusts and other financial institutions.	Upto rupees one hundred and fifty lakhs.

[सं. कां. 6-8/78-एस.जी. (ii)]

G.S.R. 171(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby specifies the period upto the 30th September, 1978 as the period by which the sixty per cent of the share capital of the eighth issue of one lakh twelve thousand five hundred shares of the Central Warehousing Corporation of the face value of one thousand rupees each, amounting to six hundred seventy five lakhs of rupees, may be subscribed by the institutions mentioned in column (1) of the Table below in the proportion mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Name of the institution	Proportion of share capital which may be subscribed
(1)	(2)
(a) State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955.	Upto rupees two hundred fifty lakhs.

[F. 6-8/78-SG(ii)]

सां. कां. निं. 172 (अ) — केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के आठवें निगम के एक लाख बारह हजार पांच सौ शेयरों पर अपने द्वारा गारंटीकृत वार्षिक लाभांश की न्यूनतम दर प्रति वर्ष साठे पाच प्रतिशत नियत करती है।

[सं. कां. 6-8/78-एस.जी. (iii)]

आर० बालसुब्रह्मण्यन, सचिव

G.S.R. 172(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby fixes the minimum rate of annual dividend, guaranteed by it on the one lakh twelve thousand five hundred shares of the eighth issue of the Central Warehousing Corporation, at five and a half per cent per annum.

[F. 6-8/78-SG(iii)]

R. BALASUBRAMANIAN, Secy.